



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117]
No. 117]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1983/चैत्र 10, 1905
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1983/CHAITRA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1983

सा.का.नि. 304(अ).—केन्द्रीय सरकार, राजक्षेत्रीय सागर-
खण्ड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और
अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा
6 की उपधारा (6) के खंड (क) और धारा 7 की उपधारा 7
के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर
अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का, भारत की महाद्वीपीय
मग्न तट भूमि और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर 1 अप्रैल,
1983 से विस्तार करती है, जो इस निर्बन्धन और उपान्तरण के
अधीन रहते हुए होगा कि उक्त अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति द्वारा
निम्नलिखित सभी या किसी क्रियाकलाप से अभिप्राप्त की गई
आय के संबंध में ही लागू होगा, अर्थात् :—

(क) भारत की महाद्वीपीय मग्न तट भूमि या भारत के
अनन्य आर्थिक क्षेत्र में खनिज तेलों के लिए
पुनर्विशोधन या उनका निष्कर्षण अथवा उत्पादन ;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप के
संबंध में किसी सेवा या प्रसुविधा का उपबन्ध या

किसी पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र का प्रदाय
(चाहे विक्रय के रूप में या भाड़े पर) ;

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों
में से किसी में लगे हुए किसी व्यक्ति के किसी
कर्मचारी के रूप में सेवाओं का करना ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “खनिज
तेल” के अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
हैं ।

[सं. 5147/फ. सं. 133(79)/82-टी पी एल]

एम. एस. उल्लिनायर, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1983

G.S.R. 304(E).—In exercise of the powers conferred by
clause (a) of sub-section (6) of section 6, and clause (a) of
sub-section (7) of section 7, of the Territorial Waters, Conti-
nental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime
Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government
hereby extends the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to
the continental shelf of India and the exclusive economic

zone of India with effect from the 1st day of April, 1983 subject to the restriction and modification that the said Act shall apply only in respect of income derived by every person from all or any of the following activities, namely :—

- (a) the prospecting for or extraction or production of mineral oils in the continental shelf of India or the exclusive economic zone of India ;
- (b) the provision of any services or facilities or supply of any ship, aircraft, machinery or plant (whether by way of sale or hire) in connection with any activities referred to in clause (a) ;

- (c) the rendering of services as an employee of any person engaged in any of the activities referred to in clause (a) or clause (b).

Explanation.—For the purpose of this notification, "mineral oil" includes petroleum and natural gas.

[No. 5147/F. No. 133(79)/82-TPL]

M. S. UNNINAYAR, Addl. Secy.